

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 07.09.2022**

**अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त फहद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरगूपुर में एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. फहद पुत्र अब्दुल गफूर नि0 राजापुर मौजा लालनगर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-242/22, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 1 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा

**गिरफ्तार कर्ता-**

उ0नि0 दूधनाथ चतुर्वेदी मय टीम।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**सोशल मीडिया सेल गोण्डा**  
**दिनांक 07.09.2022**

**लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकास तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना नवाबगंज पुलिस ने लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त रक्षाराम निषाद को गिरफ्तार कर लिया। उक्त अभियुक्त ने थाना नवाबगंज क्षेत्र की रहने वाली एक लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता की मां द्वारा थाना नवाबगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. रक्षा राम निषाद पुत्र नित्तर कुमार नि0 ग्राम सिकंदरपुर थाना परसरामपुर जनपद बस्ती।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-357/22, धारा 366, 506 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

01. उ0नि0 विवेक मौर्य मय टीम।

## **कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 07.09.2022**

### **शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-16 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### **19 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-**

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना को0 देहात पुलिस ने 09 वारंटी अभियुक्तो, थाना इटियाथोक पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों, थाना खरगूपुर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त, थाना तरबगंज ने 02 वारंटी अभियुक्तों, थाना करनैलगंज पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त, थाना कटराबाजार पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों व थाना कौड़ियां पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 07.09.2022**

**जनपदीय पुलिस ने की अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही, 17 अभियुक्त गिरफ्तार, 285 ली0 अवैध कच्ची शराब व परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद**

**बरामद:-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 देहात पुलिस ने थाना क्षेत्रों में दबिश देकर अवैध कच्ची शराब का निष्कर्षण कर रहे 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे 30 लीटर अवैध कच्ची शराब, 700 ग्राम नौसादर व 600 ग्राम यूरिया, थाना खरगूपुर पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना मनकापुर पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना खोड़ारे पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना मोतीगंज पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना तरबगंज पुलिस ने 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना वजीरगंज पुलिस ने 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 50 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना कर्नलगंज पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना इटियाथोक पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना को0 नगर पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना कटराबाजार पुलिस ने 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 35 ली0 अवैध कच्ची शराब व थाना नवाबगंज पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर 20 ली0 अवैध कच्ची शराब व परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल बरामद किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध संबंधित थानों द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 07.09.2022**

**नशीली गोलियों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त मंगल प्रसाद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 240 टेबलेट अल्प्राजोलम बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार में एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. मंगल प्रसाद पुत्र राजवंशी दीक्षित निवासी मुराइन पुरवा मौजा सेल्हरी थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-335/22, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 240 टेबलेट अल्प्राजोलम।

**गिरफ्तार कर्ता-**

उ0नि0 योगेंद्र सिंह मय टीम।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 07.09.2022**

**नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड करने का वांछित अभियुक्त मिशनशक्ति अभियान के तहत**  
**गिरफ्तार:-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं/महिलाओं पर घटित अपराधों के वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज पुलिस ने छेडछाड करने के वांछित अभियुक्त मोहित तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। उक्त अभियुक्त ने थाना वजीरगंज क्षेत्र की रहने वाली लडकी के साथ छेडछाड किया था जिसके सम्बन्ध में पीड़िता की मां द्वारा थाना वजीरगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. मोहित तिवारी पुत्र सदानंद तिवारी थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग:-**

01. मु0अ0सं0-330/22 धारा 354 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता -**

उ0नि0 शिवलखन सिंह मय टीमा।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 07.09.2022**

**थाना परसपुर पुलिस ने लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना परसपुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त-शाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना परसपुर क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना परसपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. शाहिद पुत्र जबर अली नि0 सईपुरवा मोहना थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-204/22 धारा 363,366 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

उ0नि0 दीवान चंद्र रावत मय टीम।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 07.09.2022**

**थाना को0 नगर पुलिस की अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही, 03 अभियुक्त गिरफ्तार, चरस, नशीली गोलियां व गांजा बरामद-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान 03 अभियुक्तों -01. सनोज गोस्वामी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 150 ग्राम नाजायज चरस, 02. सत्य नारायण शुक्ला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 170 अदद अल्प्राजोलम की टेबलेट, 03. रोज अली को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 150 ग्राम गांजा बरामद किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त गण-**

01. सनोज गोसाई पुत्र शिवरंग गोसाई निवासी राजासरगा थाना वजीरगंज गोंडा।
02. सत्यनारायण शुक्ला पुत्र जमुना प्रसाद शुक्ला निवासी माधवपुर चकत्ता थाना को0 नगर जनपद गोंडा।
03. रोज अली पुत्र अजीज निवासी पटेल नगर घोसियाना थाना को0 नगर जनपद गोंडा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-587/2022, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-590/2022, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0-591/2022, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 150 ग्राम नाजायज चरस।
02. 01 किलो 150 ग्राम नाजायज गांजा।
03. 170 अदद अवैध नशीली गोली (अल्प्राजोलम) बरामद



**गिरफ्तार कर्ता-**

01. उ0नि0 राम आशीष मौर्य मय टीमा
02. उ0नि0 भानू प्रताप सिंह मय टीमा
03. उ0नि0 प्रतीक पाण्डेय मय टीमा